

Date: 21st February, 2022

To BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai 400001 Scrip Code: 538970

Scrip ID: WARDINMOBI

Sub.: Intimation about publication of Extension of closure period of Rights Issue advertisement in the newspaper

Dear Sir(s),

With reference to the above captioned subject, we are submitting herewith the extract of the Newspaper publications in Business Standard-English, Business Standard-Hindi and Navshakti-Marathi dated February 21, 2022 intimating the advertisement of extension of closure period of Rights Issue of Wardwizard Innovations and Mobility Limited by 7 (Seven) days i.e. February 28, 2022 (New Closure of Offer Date) which was scheduled to be closed on February 21, 2022 (Old Closure of Offer Date).

You are requested to kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Wardwizard Innovations and Mobility Limited

Java Ashok Bhardwai

Company Secretary and Compliance Officer



Medical students hit the great wall of China

Borders still closed, students admitted to colleges there worried about meeting NMC regulations

Ahmedabad, 20 February

¬richy-based Sohail Ahmed, a third-year MBBS student of Jiangsu University, China, has been stuck at home since January 2020. While his university continues to insist on online classes, Indian regulations will not recognise his medical education unless he attends a stipulated number of physical classes and does an internship at the university. Nor will the rules allow him to take a transfer to another varsity.

"We are stuck between a rock and a hard place," says Ahmed, helplessly. "I am in my third-year of MBBS and I still don't know how to hold a syringe."

Like Ahmed, thousands of Indian students are in a bind. China, where the highest number of Indian students seeking overseas medical education go (see box), has not yet opened its borders to foreign students for on-campus classes since the pandemic started. Its universities are, however, issuing advertisements for fresh admissions to medical colleges. February and September are admission months.

This has prompted the National Medical Commission (NMC) to issue a notification on February 8, 2022, advising caution. The NMC advisory asks students to do due diligence when choosing where to pursue medical education from, while relterating that the commission does not recognise or approve medical courses completed only through online mode. NMC has also advised. students to refer to the Foreign Medical Graduate Education (FMGE) Regulations before applying. or planning to seek admission to any institution in China or elsewhere.

The FMGE regulations, which were issued on November 18, 2021, prohibit foreign medical graduates from practising in India unless they have completed a course with a minimum duration of 54 months and an internship of at least 12 months from the same foreign medical insti-



■ Every year, over 20,000 Indian students go overseas to study medicine, according to

- consultants ■ Of these, roughly 20% go to China, 18% to the Philippines 17% to Russia and 15% to Ukraine
- NMC regulations require 4.5 years of MBBS and one year of internship from the

same university

- Some countries like the Philippines and the Caribbean Islands offer 4 years of MBBS
- Malaysia, Mauritius, Kyrgyzstan
- offer 5 years but no internship MBBS study in private colleges in India cost between ₹80 lakh
- In China and the Philippines, it. cost ₹25 lakh: in Belarus, ₹30 lakh; and in Russia, ₹40-45 lakh

tution. The regulations prohibit a transfer of the programme. As a result. Indian students enrolled in Chinese universities are stuck.

"The entire course, training and internship or clerkship shall be done outside India in the same foreign medical institution throughout the course of study and no part of medical training and internship shall be done in India or in any country other than the country from which the primary medical qualification is obtained," the regulations say.

The students are bound not just by the latest regulations but also by the erstwhile Medical Council of India (MCI) rules, Aruna Vanikar, president of NMC's undergraduate medical education board, tells Business Standard,

"This applies not just to those who plan to study abroad in coun-18, 2021 but to also those who are already studying abroad," Vanikar says. "The regulations require that they meet 75 per cent attendance for practicals, and even if their theory is online, their college should give a degree that would be recognised for practice in that country."

NMC's notification states: "It has come to the notice of the Ministry of External Affairs that few universities in the People's Republic of China have started issuing notices for admission to MBBS programmes for the current and upcoming academic years. In this context, any prospective student needs to be aware that the Government of People's Republic of China has imposed strict travel restrictions in the wake of Covid-19 and suspended all visas since November 2020. A large number of international students including Indian students have not been able to return to China to continue their studies due to these restrictions. Thus far, there has been no relaxation in the restrictions.

Further, the Chinese authorities have conveyed earlier that courses will be conducted online."

The regulations not only affect Indian students pursuing medical education at universities in China but also those in the Phillippines, the Caribbean Islands and Kyngyzstan, among others, says M Kalidhas, director of Mediseats Abroad, a leading Chennal-based medical education consultant.

"The latest NMC regulations require both 54 months, or 4.5 years, of medical education and one year of internship. However, there are certain universities offering either programmes of lesser duration or do not offer internships in these countries," Kalidhas says.

Cost benefit analysis

A major mason Indian students seek admission in these universities is that private medical education there is far cheaper than in India.

While an MBBS course at a private university costs between \$80 lakh and ti crore in India, in countries like China and Philippines, it costs about ₹25 lakh, savs Sameer Yaday, an Ahmedabad-based consultant. In Belarus, it costs roughly \$30 lakh and in Russia, \$40-45 lakh. Besides, medical programmes in these countries are recognised in the US and the UK with graduates needing to only clear a licensing test," Yaday adds

Besides China, the Ukrainfan crisis, too, has upset the plans of Indian students seeking admission in the tries like China on or after November country that now has an armed Russia sitting at its borders.

"While I am stuck for three years with zero practical education and unable to transfer my programme, my sister who just cleared Class 12 has applied to universities in Ukraine (to study medicine), But with a war-like situation there, she will defer her admission and look for better destinations next year," says Salem-based Vidyasri M (name changed on request), another thirdyear student of Jiangsu University.

B Suresh, pro chancellor of JSS Academy of Higher Education and Research, Mysore, however, is of the view that this period of uncertainty is temporary. Medical education, he says, is a long game and besides, NMC regulations allow for a foreign medical graduation courses to be completed within 10 years of the date of joining.

"Studying medicine is an ambitious goal for those who pursue it," he says. "Those who don't get seats in India go abroad, and this is only

Naval fleet out in full ceremonial glory today

SPECTACLE AT SEA

Presidential Yacht, INS

Sumitra, President Ram Nath

Kovind will review the Indian

naval fleet comprising over 60

ships and submarines, and 55

aircraft. The review will also

commemorate India's 75th

year of Independence

■Ships from all naval

commands and the

Nicobar Command

sail past 44 ships

will be accorded the

are anchored in four

Presidential Yacht will

anchored in four lanes, and

· Participants include the

platforms, the latest stealth

and INS Vela, a Kalvari-class

the Indian Navy recently. INS

Chennai, INS Delhi, INS Teg

frigates and three Kamorta-

and three Shivalik-class

newly inducted combat

ceremonial salute, one by one

destroyer, INS Visakhapatnam.

submarine commissioned into

Andaman and

columns. The

· Embarked on the

AIAI SHUKIA New Delhi, 20 February

The 12th President's Fleet Review, a resplendent and much-anticipated ceremonial naval event, will be conducted at Visakhapatnam on February 21.

President Ram Nath Kovind, the supreme commander of the military, will review the naval fleet, which will include more than 60 indigenously built ships and submarines, and \$5 naval aircraft.

The Indian Navy says the fleet review is "a long-standing tradition followed by navies all across the world" and is "an assembly of ships at a pre-designated place for the purpose of displaying lovalty and allegiance to the sovereign and the state".

By reviewing the fleet, the commander-in-chief reaffirms his faith in its ability to defend the nation's maritime interests. Navies often carry out this exercise without any belligerent intentions, but the President's Fleet Review is an established part of naval deterrence signalling, in which a country displays its naval might.

According to tradition, each president conducts a fleet review once during his/her tenure. The review was planned to be held in the Andaman & Nicobar Islands in 2020, but was cancelled due to the pandemic.

The President's Yacht, which is an indigenously built Naval Offshore Patrol Vessel (NOPV) named INS Sumitra, will lead the presidential column in the review. The yacht will be distinguished by the Ashoka emblem on her side and will fly the President's Standard on her mast.

After a ceremonial guard of honour and a 21-gum salute, the President embarked on the Presidential Yacht, INS Sumitra - will sail through 44 ships lined up at anchorage off Visakhapatnam.

The review will have a combination of ships from the Indian Navy as well as the Coast Guard. Ships from the Shipping Corporation of India and the Ministry of Earth Sciences will also be participating

In this most formal of naval cere monials, each ship, dressed in full regalia, will salute the President as he passes. The President will also be reviewing the Indian Naval Air Arm in a spectacular fly-past by several

How is India's recovery

What are Dunzo CEO

latest funding round?

Covid curbs?

this month?

shaping up as states ease

Kabeer Biswas' plans after

Which stocks have bucked

the market trend and soared

#BSMorningShow

class ASW Corvettes will also be part of the review

 The ceremony will include a composite fly past by Chetak, Dhruv, Sea King and Kamov helicopters, Dornier-228s, IL-3850, P-8I, Hawk trainers and MIG 29K fighters

■ 47 the 60 ships and submarines participating have been built in Indian shipyards, showcasing indigenous

capabilities and progress towards atmanirbharta (self-reliance) • Of the 11 fleet reviews

the Indian Navy has conducted since Independence, two have been International Fleet Reviews in 2001 and 2016

 Fleet reviews are said to date back to the 15th century. In those times, they served a deterrent function, and were held when the fleet was mobilised for war or as a show of strength to discourage potential enemies

helicopters and fixed-wing aircraft, In the final stage of the review, a

mobile column of warships and submarines will steam past the Presidential Yacht.

This display will also showcase the latest acquisitions of the Indian Navy. In addition, several waterfront activities will be conducted, including "Parade of Sails," search and rescue demonstration at sea, aerobatics by Hawk trainer aircraft and water parachute jumps by the elite marine com-

The review will be followed by the release of a special First Day Cover and a commemorative stamp by the President in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and Minister of State for Communication Devusinh J Chauhan.

The ships at anchorage will be ceremonially dressed overall with various naval flags in full regalia during the day. On February 19 and 20, the ships were illuminated from sunset to midnight, a spectacle visible from the beach front in Visakhapatnam.

Get the

today's

answers in

episode of

Spaisa.com

≝Business Standard

Mon - Fri 8am

ward wizard

WARDWIZARD INNOVATIONS AND MOBILITY LIMITED

(Formerly known as Manvijay Development Company Limited)

Our Company was originally incorporated as 'Manvijay Development Company Limited in the State of West Bengal as a public limited company, under the Companies Act, 1956 and a Certificate of Incorporation dated October 20, 1962, was issued by the Registrar of Compenies, West Bengal, Calcutta. Thereafter our Company obtained a Certificate of Commencement of Business on November 23, 1982. The Registered office of our Company was shifted from State of West Bengal to the State of Maharashtra. cursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 on May 19, 2015 Subsequently, the name of our Company was changed to its present name on February 05, 2020. and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Maltarashtra, Mumbai.

Registered Office: No. 401, Floor-4, 23/25, Dhun Building Janmabhoomi, Marg, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400001, Maharashtra Tel: +91 022 -22024366; Fax: N.A.

Corporate Office Address: Survey 25/2, Opposite Pools Farm, Sayajipura, Ajwa Road, Vadodara, Gujarnt - 390019; Tel No: + 91 9727755083. E-mail: compliance@wardwizerd.in; Website: www.wardwizerd.in. Contact Person: Ms. Jaya Ashok Bhardwsj, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MR YATIN GUPTE, WARDWIZARD SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED, AEVAS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED AND GARUDA MART INDIA PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UPTO 56,62,373 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF \$1 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 82 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 81 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS.4869.16" LACS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE (1) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY FORTY THREE (43) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JANUARY 22, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 7 82 WHICH IS 82 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES, FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 196 OF THE LETTER OF OFFER.

* Assuming full subscription

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

RIGHTS ISSUE OPEN

Last date for receipt of Rights Issue Application forms is extended upto Monday, February 28, 2022

Simple, Safe, Smart way of Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking. Application - Make use of it?! It the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SESI ICOR Regulations, SESI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process or the optional mechanism instituted only for Resident Individual investors in this issue.

Kindly note that Non-Resident investors cannot apply in this issue using the R-WAP facility, and therefore will have to apply through ASSA mode. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA or the optional mechanism. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record data, please see "Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 218 of the Letter of Offer

PLEASE NOTE THAT ONLY RESIDENT INVESTORS CAN SUBMIT THEIR APPLICATION USING THE R-WAP R-WAP PAGILITY IS OPERATIONAL FROM THE ISSUE

LAST CATE FOR APPLICATION: This is to inform the Eligible shareholders of the Company that the date of Closure of the Rights issue which opened on Monday, February 07, 2022 and scheduled to close on Monday, February 21, 2022 has now extended by the Company from Monday, February 21, 2022 to Monday, February 28, 2022 vide board mosting dated February 19, 2022, in order to provide apportunity to shareholders to exercise the rights in the Rights Issue.

Accordingly, Last date of submission of the duty filed Rights Issue Application forms is extended upto Monday, February 28, 2022 (i.e. Issue Closing Date) PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY ATLEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE Lo. FEBRUARY 24, 2022, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

All otment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

If the Application Form is not submitted with a SCSB nor uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB or little Application Form is not accepted at the R-WAP, on or before the issue Closing Data i.e. February 28, 2022 or such data as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, Basis of Allotment" on page 229 of the Letter Of Offer.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE DATE AS MONDAY, FEBRUARY 28, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM EXCEPT OF MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE; RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE

LEAD MANAGER TO THE ISSUE



Date: February 19, 2022

Place: Vadodera

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED (Formerly known as Fedex Securities Limited) CIN: U67120MH1996PTC102140 B7, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle East, Mumbel - 400057

Tel. No.: +91 22 26186966; E-Mail: mb@fedses.in Contact Person: Yash Kadakia Website: www.fedsec.in SERI Reg. No.: INM000010163



PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PVT. LTD. Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shaldi Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai - 400011. Maharashtra, Contact Details: +91-22-2301 6761/8261 Email Address: support@purvasharo.com;

Website: www.purvastare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhurt; SEBI Registration Number: INR000001112

REGISTRAR TO THE ISSUE

For Wardwizard Innovations and Mobility Limited On bahalf of Board of Directors Jaya Bharadwaj Company Secretary and Compliance Officer



















business-standard.com



विमानन फर्मों पर पड़ेगी महंगे कच्चे तेल की मार

लागत की समस्याएं वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में सुधरते प्रदर्शन के दौरान भी देखी जा सकती हैं। विमानन ईंधन की कीमतें पिछले सप्ताह 5 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं और अब ये रिकॉर्ड स्तर पर हैं

मुंबई, 20 फरवरी

 रीच आठ तिमाहियों के बाद शढ़ लाभ दर्ज करने वाले सेक्टर में उत्साह अल्पकालीन हो सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ऊंची प्रतिस्पर्धी की वजह से लागत दबाव का असर प्रतिफल सुधार और वृद्धि में सुधार की उम्मीदों को प्रभावित कर सकता है।

हाल के सप्ताहों में देश की सबसे बड़ी एयलाइन इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) के शेयर भाव में उतार-चढा से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिसंबर तिमाही में मजबत प्रदर्शन और यात्रियों आवाजाही में सचार से इसकी शेयर कीमत को फरवरी के शुरू से 22 प्रतिशत की तेजी को बढ़ावा मिला है। उसके बाद पिछले पांच सत्रों में इसमें उस तेजी के एक-तिहाई की गिरावट भी आई है।

अल्पावधि में, कच्चे तेल की कीमतों और विमानन टर्बाइन ईंधन में उतार-चढाव का असर इंडिगो और स्पाइसजेट के मुनाफे पर पड सकता हैं। बेंट कुड तेल की कीमतें हाल में तेजी से चडकर अपने सात वर्ष के ऊंचे स्तरों पर पहुंची हैं और 93 डॉलर प्रति डॉलर के आसपास मंडरा रही हैं। सेंट्रम रिसर्च के आशिष शाह और वैभव शाह का कहना है, 'भारतीय एयरलाइनों को बिक्री विस्तार और मार्जिन को तेल कीमतें 70 डॉलर प्रति बेरल पर बने रहने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ा है।'

विमानन ईंधन की कीमतें पिछले सप्ताह करीब 5 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं और अब ये रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। कच्चे तेल की कीमतें अल्पावधि में इन स्तरों पर बने रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए एटीएफ कीमतों में तेजी का रखान देखा जा सकता है। दिसंबर तिमाही में इंडिगो और स्पाइसजेट के लिए विक्री में ईधन लागत का योगदान 35-42 प्रतिशत रहा।

इन लागत कारकों का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख मानकों यात्री बिक्री और मुल्य निर्धारण मजबूत सुधार

वित्त वर्ष, तीसरी तिमाही के आंकड़े (करोड़ रुपये)

इंटरग्लोब	एविएशन	बदलाव (फीसदी)	स्पाइसजेट	बदलाव	
राजस्व	9,294	89.3	2,259	34	
राजस्य के प्रतिशत के	35.2	11.90	42.7	15.82	
तौर पर ईंधन लागत परिचालन लाभ*	1,990	102.4	644	24.2	
परिचालन सुनाफा मार्जिन (फीसदी)	21.4	1.40	28.5	-2.20	
शुद्ध लाभ	128	एलटीपी	23	एलढीपी	
ਪਕਟੀਪੀ - ਕੱਪਿ ਟ ਪੱਸ਼ਿਟ	* 32000	के राजके ।	जीत - मोमदीज		



को अनुकृत बनाए रखने की जरूरत होगी। ओमीक्रोन वैरिएंट की वजह से जनवरी में औसत दैनिक यात्री आवाजाही महीने दर महीने 43 प्रतिशत गिर कर 2.07 लाख रह गई, जिसके बाद से कुल बिक्री में तेजी आनी शुरू हुई। दैनिक यात्रियों का साताहिक औसत मौजूदा समय में 2.5 लाख के आसपास है जो फरवरों के पहले सप्ताह के आंकड़े के मुकाबले 26 प्रतिशत अधिक है। भविष्य में इसमें तेजी आने की संभावना है, क्योंकि कॉरपोरेट यात्रा खंड में फिर से सुधार आया है। कॉरपोरेट यात्रा खंड दिसंबर में कोबिड-पूर्व स्तर के 70 प्रतिशत

पर प्रभावित हुआ और जनवरी के पहले पखवाडे में इसमें भारी गिरावट आई। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उडानों को खोलने की योजनाओं. यात्रियों की आवाजाही और उपयोगिता स्तरों में सुधार आने की संधावना है।

एयरलाइनों के लिए अन्य सकारात्मक बदलाव दिसंबर तिमाही में प्रतिफल में सुधार रहा। जहां स्पाइसजेट ने इस संदर्भ में सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की. वहीं इंडिमी का प्रतिफल समान अवधि के दौरान 19 प्रतिशत बढा। इंडिगो और स्पाइसजेट के प्रतिफल में अंतर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के आदित्य मॉगिया और टीना विरमानी ने कहा कि इंडिगो का प्रतिफल अब अपने सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धियों के मकाबले काफी ज्यादा है, जबकि कोविड-19 से पहले इसमें घाटा दर्ज किया गया था।

कंचे राजस्व, परिचालन लाभ पर कम युनिट लागत/अन्य खर्च से तिमाही में किराया प्रभावित हुआ। स्पाइसजेट ने 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की वहीं, इंडिगो के लिए यह आंकडा एक साल पहले की तिमाही के मुकाबले दोगुना था। जहां इससे आठ तिमाहियों के बाद मुनाफे पर दबाव को बढ़ावा मिला है. वहीं सेंटम रिसर्च इसे लेकर अनिश्चित है। ब्रोकरेज के विश्लेषकों का कहना है, 'जहां टैफिक रिकवरी आसन्त दिख रही हैं, वहीं ऊंचे कच्चे तेल की कीमतों के परिवेश में लाभ के मौजूदा स्तरों की निरंतरता की लेकर हम चिंतित बने हुए हैं।'

इसके अलावा, इस सेक्टर में दो नई एयरलाइनें-आकाश और जेट एयरवेज और संभवत: विस्तारा, एयरएशिया तथा एयर इंडिया के समेकन को देखते हुए ज्यादा प्रतिस्पर्धा पैदा होने की संभावना है। इससे मृल्य निर्धारण पर दबाव पड सकता है, क्योंकि नई कंपनियां वाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश करेंगी।

कई ब्रोकरेज कंपनियां स्पाइसजेट के मुकावले इंडिगो को पसंद कर रही हैं। इसकी वजह यह हे कि इंडिगो का नकदी बैलेंस करीब 7,800 करोड रुपये है, उसका विमान बेडा (ईधन किफायती ए३२० नियो शामिल) भी सक्षम है और वह लागत किफायती ढांचे में भी सफल रही है। एडलवाइस रिसर्च के जैल ईरानी के नेतृत्व में विश्लेषकों ने स्पाइसजेट के लिए अपने कीमत लक्ष्य और परिचालन लाभ अनुमानों में कटौती की है। 737 मैक्स की डिलिवरी में विलंब, निवेशकों के लिए पारदर्शिता के अभाव कारगो व्यवसाय के स्थानांतरण. सस्ते बोइंग विमानों के स्थानायन्न और कमजोर बैलेंस शीट आदि को देखते हुए इन अनुमानों में



बाजार हलचल

टीसीएस बायबैक से आर्बिटाज अवसर

ब्रोकर अपने रिटेल ग्राहकों को टीसीएस के शेयर आर्बिट्राज अवसरों का लाभ उठाने के लिए खरीदने की सलाह दे रहे हैं। वे उन्हें 18,000 करोड़ रुपये की पुनर्खरीद से पैदा होने वाले अवसर का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। आईटी कंपनी ने पुनर्खरीद कीमत 4,500 रुपये प्रति शेयर पर निर्धारित की हैं, जो उसके पिछले बंद भाव के मकावले 18 प्रतिशत अधिक है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमें स्वीकार्यता अनुपात 30-50 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है, जिससे 1-2 महीने की समय-सीमा में 5-9 प्रतिशत का संभावित प्रतिफल मिल सकता है। छोटे निवेशक खले बाजार से टीसीएस के शेयर खरीदने और पनर्खरीद पेशकज्ञ के अवसर का लाभ उठाने की संभावना उलाश रहे हैं। पुनर्खरीद के लिए रिकॉर्ड तारीख 23 फरवरी है।

ट्यूब, रिलैक्सो को एफटीएसई में शामिल होने से मिलेगी मदद

ट्युब इन्वेस्टमेंट्स और रिलैक्सो फुटवियर के शेयरों को एफटीएसई इंडिया ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल होने से मदद मिलने की संभावना हैं। आईआईएफएल अल्टरनेटिव रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रयुब में सक्रिय निवेश प्रवाह 3.5 करोड़ डॉलर और रिलैक्सी में करीब 2 करोड़ डॉलर होगा। एक विश्लेषक ने कहा कि इस खरीदारी कर असर दिखेगा क्योंकि यह इन शेवरों में मौजूदा डिलिकरी आधारित विक्री के कई गुना पर है। एफटीएसई ने अपने एफटीएसई इंडिया ऑल कैप सचकांक में 17 नए शेयर शामिल करने की भी घोषणा की है। ये बदलाव 17 मार्च 2022 से प्रभावी होंगे।

एमएफआई पर विश्लेषक उत्साहित

माइक्रोफाइनैंस संस्थानों (एमएफआई) के शेयरों का प्रदर्शन भविष्य में मजबूत वृद्धि की उम्मीद में अच्छा रहने की संभावना है। विश्लेषकों के अनुसार, कई एमएफआई ने दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान सामान्य संग्रह की दिशा में अच्छी प्रगति की है। इसके अलावा, ऋणदाता नई प्राहक वृद्धि में तेजी आने का संकेत दे रहे हैं, जो कोविड संबंधित चुनीतियों को वजह से पिछली 6-7 तिमाहियों के दौरान धीमी पढ़ गई थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमें विश्वास है कि पिछली आठ तिमाहियों की वृद्धि और मजबूत आंकड़ा यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्तायुक्त वृद्धि बरकरार रहेगी।' समी मोडक और सुंदर सेतुरामन द्वारा संकलित

बीएस बातचीत

बाजारों के लिए टी-20 का दौर हुआ समाप्त

पिछला सप्ताह बाजारों के लिए कठिन दौर रहा, क्योंकि उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा।वेलेंटिस एडवायजर्स के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक ज्योतियर्द्धन जयपुरिया ने पुनीत वाधवा को दिए साक्षात्कार में बताया कि पिछली तिमाही के दौरान उनके नकदी स्तर में डजाफा हुआ है। उनका कहना है कि इससे बाजार में अनिश्चितता के वक्त सस्ते शेयर खरीदने में मदद मिली। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंशः



संभावना जताई जा रही है? फैलने के बाद पिछले 22 महीनों इस बार भी समान स्थिति हो। के दौरान देखा। बाजार अपने सकती है क्योंकि काफी हद तक निचले स्तरों से दोगुना और कीमत गिरावट इस साल की कोविड-पूर्व केचे स्तरों से करीब पहली तिमाही में हुई है और 40 प्रतिशत चहे हैं। इस तेजी की बाजार उसके बाद सीमित दायरे देखते हुए हम कीमतों में गिरावट में रहेंगे। देख सकते हैं। बाजार के लिए हम टेस्ट मैच दौर में प्रवेश कर रहे हैं। वजरिया है? आय में सुधार की रिव्यति में हम तीन से चार साल के नजरिये से, के मुकाबले आकर्यक है। भारत ने अगले पांच साल के दौरान दो अंक हम इन सेगमेंट पर सकारात्मक बने हमेशा से ईएम के मुकाबले महंगे के प्रतिफल की उम्मीद कर रहे हैं।

क्या फेडरल द्वारा दर वृद्धि के में तेजी से आय बढ़ाती हैं। हालांकि बाद आप कुछ हद तक बदलाव मुख्यांकन के नगरिये से वे लार्जकेप रणनीति क्या रही है? की उम्मीद कर रहे हैं?

अल्पावधि मूल्यांकन महंगे हैं और बाजार गिरते हैं तो इन सेगमेंट में मौद्रिक नीति परिवेश बाजारों के द्वारा दर वृद्धि के संदर्भ में बाजारों भी बनेंगे।

समाप्त हो गया है और अब हम सेजमेंटों के लिए आपका क्या

हुए हैं। इसकी वजह यह है कि ये मुल्यांकन पर कारोबार किया है। कंपनियां आर्थिक सुधार की स्थिति को लेकर ज्यादा सस्ते नहीं हैं। यदि अल्पावधि में बड़ी गिरावट आएगी,

सकारात्मक बने हुए हैं। कुछ भारांक घटाने का कारण यहां दो भारत ने इंएम के मुकाबले अच्छा है और माल भाडा दर भी घटी है। प्रदर्शन किया है, जिससे भारत से बह कह सकते हैं, 'टी-20 का दौर मिडकैप और स्मॉलकैप परिवर्तनकारी बदलाव को बढ़ाया वित्त वर्ष 2023 की कॉरपोरेट मिला है। दूसरा, भारत में मूल्यांकन आय वृद्धि के लिए आपका अपेशाकृत अन्य ईएम प्रतिस्पर्धियों

2022 में अब तक आपकी निवेश

हम घरेलू चक्रीयता आधारित का अनुमान जताया है, क्योंकि कंपनियों पर ओवरवेट रहे हैं, एनपीए पर दबाव घटा है और क्योंकि यह ऐसे नाम हैं जिनमें बड़ी सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च बढ़ाने लिए नकारात्मक रहेगा। फेडरल लेकिन उस गिरावट में हम खरीदार पुंजी अगले कुछ वर्षों में पैदा होगी। से मांग परिदश्य में सुधार आया है। हालांकि हमने तकनीकी आधार पर

विद्यापन संख्याः 27/2022

पिछली तिमाडी के दौरान नकदी स्तर बढाने पर जोर दिया। इससे हमें बाजार में अस्थिरता वाले दिनों में सस्ते शेयर खरीदने में मदद मिली। इमने सीमेंट और पूंजीगत वस्तु कंपनियों को अपनी पोजीजन में जोड़ा है। इसके अलावा हम वाहन क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहे हैं. जिसमें सेमीकंडक्टर की समस्या दूर होने की संभावना है।

क्ये तेल की कीमतों में कितनी तेजी आ सकती है और मदास्फीति से वित्त वर्ष 2023 में भारतीय उद्योग जगत की रियति किस हद तक प्रभावित होगी?

जिस कीमती में वृद्धि का कुछ मार्च 2022 तक बाजार की चाल को कुछ संघर्ष करना पढ़ सकता क्या 2022 के बाद के हिस्से में प्रभाव दिसंबर 2021 की विमाही केसी रहेजी, जब अमेरिकी हैं। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी में देखा गया था। यह प्रभाव दो फेडरल द्वारा दर वृद्धि की वे फेड द्वारा दर वृद्धि को लेकर पूंजी प्रवाह वापस आ सकता है? कारकों की वजह से विन वर्ष 2023 चिंतित हैं, लेकिन तेजी टिकाऊ विदेशियों ने फेडरल समेत प्रमुख में घट सकता है। पहला, केपनियां हमें बाजारों को उसी संदर्भ में रहने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा मीदित नीति में जिस कीमतों में तेजी का बोझ अब देखना होगा, जैसा कि महामारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। सख्ती जैसे कदमों की वजह से उपभोक्ता पर डालने को कोशिश उभरते बाजारों में बिकवाली की कर रही हैं और इसका असर है। हालांकि, वे भारत पर अभी भी अगली कुछ तिमाहियों में दिख सकता है जिससे सकल मार्जिन में सुधार आएगा। दूसरा, लॉजिस्टिक घटनाक्रम की वजह से हैं। पहला संबंधित समस्याओं में कमी आई

अनुमान क्या है?

वित्त वर्ष 2022 में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि की मदद से हमें वित्त वर्ष 2023 में 16 प्रतिशत की बद्धि दर की उम्मीद है। हमने इन अनुमानों में बड़ा बदलाव नहीं किया है और बैंकों द्वारा बेहतर आय

APPOINTMENTS

भारत सरकार

लोक उद्यम चयन बोर्ड

मेकॉन लिमिटेड

निदेशक (प्रोजेक्टस)

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की

अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 (15.00 बजे तक) है।

एफपीआई ने फरवरी में निकाले 18,856 करोड़ रुपये

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशको (एफपीआई) ने फरवरी माह में अब तक भारतीय बाजारों से 18,856 करोड़ रुपये निकाले हैं। भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर्शे में बहोतरी की संभावना के बीच एफपीआई की निकासी बढी है।

डिपॉजिटरों के आंकड़ों के अनुसार, एक से 18 फरवरी के दौरान एफपीआई ने शेयरों से 15,342 करोड रुपये और ऋग या बॉन्ड बाजार से 3,629 करोड़ रुपये की निकासी की है। इस दौरान उन्होंने हाइब्रिड माध्यमों में 115 करोड रुपये का निवेश किया है। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी 18,856 करोड़ रुपये रही है। यह लगातार पांचवां महीना है जबकि विदेशी कोषों ने भारतीय बाजारों से निकासी की है।

मॉनिंगस्टार इंडिया के सहायक निदेशक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, भू-राजनीतिक तनाव और फेडरल रिजर्व हारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी

की संभावना के बीच एफपीआई हाल के समय में भारतीय शेयरें से निकासी कर रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैक द्वारा च्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत दिए जाने के बाद उनकी बिकवाली भी तेज हुई है। कोटकसिक्योरिटीज के इक्किटी शोध (खुदरा) प्रमुख श्रीकांत चीहान ने कहा कि अमेरिका और रूस के बीच युक्रेन को लेकर तनाव बढ़ने से निवेशकों का रख बॉन्ड और सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ ही गया है।



(Formerly known as Manvijay Development Company Limited) Corporate Identification Number: L35100MH1982PLC264042

Our Company was originally incorporated as 'Manylay Development Company Limited in the State of West Bengal as a public limited company, under the Companies Act, 1956 and a Certificate of Incorporation dated October 20, 1962, was issued by the Registrar of Companies, West Bangal, Calcutta. Thereafter our Company obtained a Certificate of Commencement of Business on November 23, 1962. The Registered office of our Company was shifted from State of West Bengal to the State of Maharashitra pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 on May 19, 2015 Subsequently, the reme of our Company was changed to its present name on February 05, 2020. and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. Registered Office: No. 401, Ficor-4, 23/25, Ohun Building Jannabhoomi, Marg, Horniman Circle, Fort,

Mumbai - 400001, Maharashtra Tel: +91 022 --22024366; Fee: N.A.

Corporate Office Address: Survey 26/2, Opposite Pooja Farm, Sayajjoura, Ajwa Road, Vadodara, Gujarat - 390019; Tel No: + 91 9727755083. E-mail: compliance@wardwizerd in; Website: www.wardwizerd in. Contact Person: Ms. Jaya Ashok Bhardwaj, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MR YATIN GUPTE, WARDWIZARD SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED, AEVAS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED AND GARUDA MART INDIA PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UPTO 59.62.373 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF < 1 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF < 82 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 7 81 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO 85.4889, 15" LACS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE (1) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY FORTY THREE (43) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JANUARY 22, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS T BZ WHICH IS BZ TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 196 OF THE LETTER OF OFFER. Assuming full subscription

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

RIGHTS ISSUE OPEN Last date for receipt of Rights Issue Application forms is extended upto Monday, February 28, 2022

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below

PROCEDUME FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICOR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASSA process or the optional mechanism instituted only for Resident Individual Investors in this issue,

Kindly note that Non-Resident Investors cannot apply in this issue using the R-WAP lacility, and therefore will have to apply through ASBA mode. investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA or the optional mechanism. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 218 of the Letter of Offer

PLEASE NOTE THAT ONLY RESIDENT INVESTORS GAN SUBMIT THEIR APPLICATION USING THE R-WAP R-WAP FACILITY IS OPERATIONAL FROM THE ISSUE OPENING DATE

LAST CATE FOR APPLICATION: This is to Inform the Eligible shareholders of the Company that the date of Closure of the Rights issue which opened on Menday, February 07, 2022 and scheduled to close on Monday, February 21, 2022 has now extended by the Company from Monday, February 21, 2022 to Monday, February 28, 2022 vide board mosting dated February 19, 2022, in order to provide opportunity to shareholders to exercise the rights in the Rights issue.

Accordingly, Last date of submission of the duly filled Rights Issue Application forms is extended upto Monday, February 28, 2022 (i.e. Issue Closing Date) PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY ATLEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE

CLOSING DATE I.e. FEBRUARY 24, 2022, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM. Allictment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to The same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

If the Application Form is not submitted with a SCSB nonuploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB or if the Application Form is not accepted at the R-WAP, on or before the issue Closing Date i.e. February 28, 2022 or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights. Equity Shares hereby offered, as provided under the section, Basis of Allotment" on page 229 of the Letter Of Offer.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE DATE AS MONDAY, FEBRUARY 28, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY advertisement, entitlement letter and application form except of modification in the issue closing date; resultant change in the INDICATIVE TIMELINE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE REGISTRAR TO THE ISSUE LEAD MANAGER TO THE ISSUE



Date: February 19, 2022

Place: Vadodera

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Fedex Securities Limited CIN: U67120MH1996PTC102140 87, Jay Chambers, Dayaldus Road, Vile Parle East, Mumbei - 400057.

Tel. No.: +91 22 26186966; E-Mult: mb@fedset.in Contact Person: Yash Kadakia Website: www.fedsec.in SEBI Reg. No.: INM000010163



PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PVT. LTD.

Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, Contact Details: +91-22-2301 6761/8261 Email Address: support@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;

SEBI Registration Number: INR000001112 For Wardwitzerd Innovations and Mobility Limited On behalf of Board of Directors

Jaya Sharadwaj Company Secretary and Compliance Officer

जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.pesb.gov.in में लॉग इन करें।

रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बैंक 1,64,97,973 इक्किटी शेयरों तथा ट नॉर्थ फंड छह एलएलपी 2,92,16,313 इक्किटी

फेडरल बैंक की सहायक लाएगी

फेडरल बैंक की सहायक फेडबैंक फाइनैशियल सर्विसेज लि.

(फेडफिना) ने भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास

आरोंभक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दस्तावेज जमा कराए हैं।

फेडरल बैंक ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि

फेडफिना ने 19 फरवरी को सेबी के पास दस्तावेज (डीआरएचपी) जमा

कराए हैं। आईपीओ के तहत नए शेयर जारी किए जाएंगे और साथ ही

फेडरल बैंक और ट नॉर्थ फंड छह एलएलपी द्वारा बिक्री पेशकश

फेडरल बैंक ने कहा, फेडफिना के आइंपीओं के तहत 900 करोड़

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम

शेयरों की बिक्री पेशकेश लाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में फेडफिना ने 697.72 करोड रुपये का राजस्व अर्जित किया था और उसका शुद्ध लाभ 61.68 करोड़ रुपये रहा था। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी का नेटवर्थ 834.73 करोड़ रुपये रहा था। आईपीओ के बाद भी फेडफिना फेडस्ल

बैंक की सहायक बनी रहेगी।

(ओएफएस) लाई जीएगी।

IN THE CITY CIVIL COURT AT BOMBAY DINDOSHI BRANCH CHAMBER SUMMONS NO. 1114 of 2021

EXECUTION APPLICATION NO. 29 of 2020 IN SUIT NO. 3739 of 2013

1. Snt. Thresa Hary Rodrigues Age 83 years , Ocz : Nil 2. Smt. Threasa Malcolm Rodrigues Age 53 years , Occ : Service 3. Franklin Rodrigues Age 60 years , Occ : Refired

4. Hillary Rodrigues Age 58 years , Oct : Service Hydrian Rodrigues Age 55 years , Doz : Service 6. Neison Rodrigues

Age 50 years , Occ : Service T. Sent. Gienda Ignatius D'aliva Age 49 years , Occ : Service 8. Shri, Noel Rodrigues

Age 45 years , Occ : Business

All being the Heirs and legal Representative of Late Shri, William Radrigues and residing at 82 D. Valrola Wilago, Sanlacruz (East). Mumbei- 400 055.

Versus 1 (a), Sent. Agatha Baptista Age 52 years , Occ : Not Known 1 (b). Snt Brochi Kenny Age 44 years , Occ : Not Known 1 (c) Sent Wenzila Rodrigues Age 46 years., Occ : Not Known

1 (d), Smt Michelle Symain Rodrigues Age 35 years , Occ ; Not Known 1 (e). Bora Rodrigues Age 48 years , Cox : Not Known 1 (f) Nestor Rodrigues Age 50 years , Occ : Not Known All the Heirs and legal. Representative of Late Shri. Leonard & Joseph Rodrigues and residing at CTS NO. 1966, 62 C Monica VIIIa, Valora VIIIage , Sentacruz (East), Mundai-400 055.

2 (a), Smt Henrita Labo Age 50 years , Cox : Not Known 2 (bi. Smt Hamien Fernandes

Age-48 years , Ocz : Not Known 2 (c) Smi Elena II' Souza Ago 44 years , Occ ; Not Known

2 (d), Smt, Cheryl D' Souza Age 41 years , Occ : Not Known 2 (e) (i), Juniel D'Abreo Age 21 years , Occ : Not Known

2 (a) fill. Karrentin D' Abreo Age 25 years , Occ : Not Known Both 2(a)(i) and 2(a) (ii) are the heirs and Legal Representatives of Late Smt. Hydintha D' Abreo docuesed daughter 2 (f). Byle Rockigues Age 51 years , Occ ; Not Known All Heirs and legal Representative of Late. Alben Rodrigues residing at CTS NO. 1967, 62 C Wonice Ville, Vehale Village , Santacruz (East), Munitel-400 (55).

(a) Kenny Lobo Age \$1 years , Cox : Not Known Residing at CTS NO. 1965, 145 A Valois Village , Sentacruz (East), Mambai-400 065.

4 (a). Kiter Pereira Age 54 years , Occ : Not Known 4 (b). Ws. Juliet Pereira Age 66 years . Occ : Mot Known 4 (c). Syrus Pereira Age 90 years , Occ : Not Known 4 (c). Smt. Rona Cosmos Fornandes. Age 55 years , Occ : Not Known 4 (e). Ms. Jean Pereira Age 50 years , Occ : Not Known All Heirs and legal Representative of Late Set Natly Penilis, 69 Chapel road, Ground floor, Bandta (west), Wumbai-400 055.)

5 (a): Daryll D'Abreo Age 55 years., Occ : Not Known 5 (b), Kum, Yuka D' Abreo Age 52 years , Occ : Not Known 5 (c). Smt. Harlott Vallarados Age 50 years , Occ : Not Known 5 (d), Sml. Paney Lobo Age 60 years . Occ : Not Known 5 (el. Seri, Loretta Rosario Age 65 years ... Occ : Not Known

All Heirs and legal Representative of Rita D'Abreo residing at 147 Rita Villa. Valora Village , Sentacruz (East), Wumbai-400 065.

6 (a) Smt. Letty D' Mello Age 85 years , Occ : Not Known 6 (b), Collete D' Mello Age 63 years , Occ ; Mci Known 6 (c). Smt. Livrues Gardhi Ade BO years . Occ : Not Known 6 (d). Smt. Excle Manjest Kaur Kalsi Age 57 years , Occ : Not Known 6 (e). Smt. Susia Gomes Age 55 years , Occ ; Nol Known 6 JR, Anaclem Radrigues Age 82 years . Occ : Net Known 6 (g), Kurn, Caroline Rodrigues Age 48 years , Cox : Not Known

All Heirs and legal Representative of Late. Micheal Rodrigues residing at CTS NO. 1969.) Valor Village , Santacruz (East). Mundai 400 055.

.. Defendants/JD

4 (a) (i) Theresa Pereira Age Not Known years , Ocz : Net Known Viral Manik Bullding ro-2, A-wing, Racon no-202, 2° Floor, Noar Santol Talkies, Bhayander (Mest), Thane-401 101.

Theresa Pereira Defendant No.4 (a) (f) Addess: Viraj Manik Building no-2, A-eing, Room no-202, 2" Floor, Near Santok Talkiss, Bhayander (Hest), Thane-401 101.

LET ALL PARTIES TAKE NOTICE that, this Hon'ble court will be moved before his Hon'ble Addi, Session Judge Shri K.V. MORE Presiding in the court room No.04 on 25th February 2022 at 11 0 Clock or soon thereafter by the above named

Plaintiffs for the following reliefs. a) That This Honbie court be please to condone delay of 1150 days in taking out the above Chamber Summons: Contd.

Reliance रिलायंस होम फायनान्स लिमिटेड

नोहर्गीकृत करकोलक आणि लाका कार्यालक रिलाक्स होम कावनाम लि.. सवी टॉवर, ११वा सवला, जल पश्चिम जिंग, प्लॉट झ. १२, मे. सं. सार्थन मार्ग, तादा मुंबई-४०० ०१८

म्याअधी वेचील खालील नमुद्र कर्जदर/सहकर्जदर/हमीदर/पहलावरदरांनी **रिस्तवस होम कावनान्स सिमिटेडकादून** विशीध सहाप्य पेरले. आप्तो स्पृत करीत आहेल की, नितीय सहाप्य पेडलही कर्नडर/इमोदार/पहापयटदार वांदी विधन तारखेनुसार प्याब आणि शुहर रक्षमंत्रे प्रदार काण्यात करा. केलेली आहे. खाते हे मलंच्या वर्गीकरणामंत्रीयी नेशकत राजसिंग बीबद्वार अही केलेले निर्देश/मार्गदर्शकः राजानुसार नेबील चारतील बसूद संबंधित राज्योच आरत्यस्थानम् मुकामध्ये ग्रॉप परचर्मिन ऑसेटस् म्हणून वर्गीकृत काने आहे. परिचाली, विस्तायम होय फरवानान्त निर्मिटेहरूमा प्रशिवन ऑफिस-यांनी सिन्दुरिटायहेलन ऑस्ट्र रिकन्स्ट्रनान ऑफ काराजनिकार ऑसंट्रम् औरत एन्योजींर ऑफ विकारित हंरोसर अंक्ट, २००२ अन्यमें आणि काम १६(२) सहायाया विकारित इंट्रीस्ट (क्योर्ससेंट) करता, १००१ च्या विका । आयांने प्रदान बेलेल्स अधिकारांचा नाग करना सद्दार सुनार प्रातीच्या लाखेपासन ६० दिवसांत सुन्नेन नमुद्र केलेल्या एकांक्ट एकविन प्रदान्त्रच्या लाग्येग्पीन सुन्नेत नमूद केलेल्या गानोगरील संविधालक दाने पुर्वाल लाव अणि अनुष्तिक वर्णा, पोल्पन, प्रमार ४. शी राजम पुषती करणामधी खालील कर्पदार/इमीद्दा/पहाणवटदार वांच जोलाजिल्यासाठी शरीवरी ऑस्ट २००२ तथा कलाव १३(२) अल्बचे येथे खालील वसूद शंबीचन नारखांना माराणी सूचना जारी चेल्या आहेत.

त्यांच्या तेषटच्या ज्ञात पन्यावर त्यांचा पाठविलेल्या सूचना बातावणी र होता पात आल्या आणि प्रश्नुव चाट्टारे त्यांचा न्याबायन जाहीर सूचनेद्वारे कळचित्रवार येन आहे.

१. कर्जदम/सह-कर्जदम/हमीदागचे नाच आणि पत्ताः

१.**मुख आसून सेख २. मार मुख लेख.** ००१, तथ मनना इम्पार **छ. २४ सेरमात को और हा**ड ऑस कि. अपून राम नेरिसर्स प्रतिस्त

र्मनः आन्त्रवाह्माहानुष्टाः वरण्यक्षात्रे । आन्त्रवाह्माहानुष्टाः वरण्यक्षात्रे ।

मायमी मूचनेचे वारीचा: २/२/२३

१५(१) मुक्तेत्रमाचे अकवाची स्क्रम: स. ४०४११५४/-तारच बलेका विकासन बना; फारेट झ. १०३, शा धवता, व स्मिन, इनकर झ. ४, सबन ३ आणि ४ प्रीयवस्थातन, "गीरव संकाल फेव स" अमी हात इमारा, जीनीकी सामानाळ, मीठ रोड(पूर्व), छाने, महराहु-४०९१०७ में वर्न ते बार आणि विवास.

२. कर्जदार/मह-कर्जदार/हमीदाराके साथ आणि पता: परिचार प्रतिका सुबई स्वाराष्ट्र-४४०१०४

स्वरः आमर्थानीयीम्बयुर्मश्रश्यात्रकारकः कृत्यीत् नारीकाः १९/१२/२०२१ भाषणी सूचनेयं शारीकाः १०/२/२०२२ १४(२) मुख्येतमाने प्रकारको रक्षणः स. ५२५८३९३/-सरम प्रमेचा विश्वकत प्रमा; सवर्ग नगः निक राहतमक गीराम पश्चिम तुर्वा प्रशाह-४०००९४ चा पर्नाट क्र.बी/६ वेथे विश्व गाव

पहार्तामा प्रतिदेशा क्र. १ए/५७, प्रीराज अधिक शहादीयल हारेट लक्ष्यी रत यजना, मुजीट क्र. ५५, मोजपार्वत २५,५० ची.मी चार्ड खेव मंतारीत ११. ०१ चों. में किए। अब सेत अधि ८० चारक मिठकरों ने सर्व हे भाग आणि तिमाग.

१. रीलेश ए। पांजीकर, १. अंक्सेंट कॉन्फिईगाल इन्व्हेस्टिनेशन प्रायकेट निषिदेह ३. कोका एस पांजीकर, ४. शासा एस मांजीबर, १२, नवलकी बीटनएस प्रेम नगा उनक नगा होत का २ गोरंगान परिचय मुंबई, महाराह-४०००५२, एल्पीर् सारिधाः ४६/०६/१०११

पाणकी प्रकास जातिक: 3/9/99

१३(२) मृत्यनेप्रमाणे शक्तवासी उक्कयः र. २०६६९२४०/-

तानव मर्गावा मिळका प्रशः सीटीया क्र. १२२/मी(भार), १२१/गुभारा), १२५/गुभारा), १२५, १२५, १२८, १२८(भार), ११०(मारा) , \$20/8(MPN), \$50/9, \$29 \$50(MPN), \$50(MPN), \$55/4(MPN), \$55/5(MPN), \$55/5(MPN), \$55/5(MPN), \$55/5(MPN), \$55/5(MPN), \$55/4(MPN), \$55(MPN), \$55(MPN २८२/१(अल), ४९६(अल), ४२२(अल), ४२२(अल), ४२५(अल), ४२५(अल), ४३६(अल) व ४२५(अल), लहुल ३२०३०.२३ जी.मीटर्स समीर ж. १८०%, ४८मा प्रकार टीम भी आँगा गेंगिस्टे गुरेज पादा शिक गेंद्र बालाद वस्त्रिक हुंची बहुबाहु-४०००% प्राप्त शिककारीचे ते गर्व

४. अर्जनार/सह-कार्जनर/हारीनागर्च नाच आणि पनाः है. मुच्ची केट अंड लॉनिसिटका प्रापन्नेट निपिटेड , १. अस्ति विज्ञ्यास बढकर ३. विश्वास सुधाव बढकर, पर्नट ४. १०५ १०५ की किंग, एका इमारह उत्तरंत्र कार खेंद्र पार्क लिक रोड, पोलिस बीकीजकत सिव पोरिसक्तरंत्र समागव करियलेका तकिसर कुई मुंबई महाराह-

र्मनः आमर्ष्यप्रवाहमप्रमुद्दम००००१३११५ एत्पीर् वारीसाः ४६/१२/२०२१ मागारी सूचनेचे वारीसाः ८/२/१२ १६(१) सूचनेयसार्वं बळळळी त्यावः सं. १०८९०९६६/-

भारत प्रकेश विभावत प्रमा; कार्यालय क. १८२, एस प्रमार स्वरा मेश नोलेशन क १६५/१३ जागार गोजवारीय ५२५,१ जी.सी किया सम्बद्ध विश्वकर्ती में समें से घार आणि विधाय. उसर मान्या दिसंदे: ३० विट रोड, दक्षिण मान्या दिसंदे: लोटीयसाझ. १५७/१४ प्रतिमा मान्य विशेष्टः जीटीम्स क. १८०/० ताल संसार ओम नगर जनक अंगेरी पूर्व मुंबई महराष्ट्र-४००० १९

कर्मदर्श/सह-कर्मदर्श/हमीदासचे नाव आणि पश:

क् अवक परमानंद प्रार्थी २. कामानंद विक्रु प्रार्थी, वी ५/२, कोर्डनाथ एवंज में एकाल कि., मेर बेविजर्म तक स्थूल समोद, वांडी कर्य मिरा रोड प्. क्षत्रे महत्रक्

सीन: आरहचार्च्यत्सार्वयूर्ण००००१ ०६७० सन्तीष्ट्र सारीखाः ०६, १२,२०२१ तलको स्वनेधे भागीया ४.०१.५१

१३(१) सुक्रोप्रमाने सकवाकी तक्षमः त. ४०१७३५८/-

<u>तारण मनेजा मिसकार पता:</u> विशवत धारण घटाट इ. २. सर्चे इ. १०५, बांग्ने सवर्धर विकास इ. एवर, सिटी सर्चे इ. १६०, १६०/१ १४, मोजपनित २५७४९,६० चीरव मीटर्क, चार्टर क. ६०४, ६ वा मजरात, तुमा क. बी ७, दिच्या लाईट्स, निरामर्ट विश्व, अंभेरी च. मुंबई,

६. कर्जदान/सह-कर्णदान/हार्गदासचे नाथ आणि पानाः

१. मुद्रि जो विश्वा २. मंजू एस विश्वा, जाक क्र. १९१७ मधीर, सार्विश्य करेनरी भी टी संख्यान, उत्तरासमार ५, पूर्व, छात्रै ४२१००५ लेंग:आरएकरकेरलव्याय००००२९९६० व्यापीए सार्वसा: ०६.११.२०२१ आगावी सूधवेचे नार्वाता: २५.१.२२ १६(१) सुबल्यमानं वसवाची तक्तनः ए. १६०००४०/-

<u>बाल्य यसेवा विकास पनाः</u> वर्णन धरक पटळ. १४, विस्ताळ. (धाप), सं.ही.एत ळ. १२८५, प्रतिका तकत ळ. ४४१८/ ऑन्स वर्षिक. 👊 🛪 जी १ तटमारात, हमारा क्र. १३, मिर्का युंडा इसा. क्ष. १३ आणि १४ वीएवस्सारत, रहूत इस्टेट, मीरेवारी अंबासाय पूर्व, दाने, माताङ्ग वा विका मिळका पारण अंदाने ८५७.५ ची.मू. ताहुत इस्टेट अंबताल पर्देट में तार्व हे मान आणि विभाग.

 क्रजेंदर/सह-क्रजेंदर/इसीदराखें राघ आणि प्रश: ह. नमेरा **वाहुतल दहले, २. अस्ति नमेरा दहली**, थी-३८५, पटणका रहितानी, नर्स बना, जिलेसे बाराओपार परिचन, रामे बहराह

eir, arreachaftura arrana an ina भागीताः १६/११/१०११

१३(१) मृत्रनेप्रमाने वकताची रक्षमः त. १०८८०५०/-तारम वर्तमा मित्रमत पत्ता: मित्रकर चारम प्लीट झ. १०%, १ रा मनला, वी निए, इमरत नाले पटणबर रेमिश्रमी ए आणि वी

mont minus 23/4/4+25

सील्यापुरात, साई नगर, पेतिस स्टेशन समीर, नालसीपार, रामें, महराक्ष्में सर्व ते भाग आणि विभाग

The spire of Mumbai

anow 93 years old!

FREE PRESS JOURNAL

STREET, STREET

www.freepressjournal.in

b) That the above execution

application be allowed to be

amended and that the name of

the deceased Defendant no 4(a)

be deleted and the name of the

proposed defendent/Judgment.

Debtor no 4(a)(i) being the only

defendant (Judgment Debtor

place of defendant no 4(a) In

c) That the Applicanti Decree Holder

may be allowed to carry out

Such other and further reliefs

and proper in the nature and

Dated this 21st day of February 2022

For Registrar

City Civil Court, Mumbai

Vrustal N. Gupta

Advocate for PlaintHIDH

14, Joshi Wadi, T.H. Kataria Marg,

Matunga (M) Mumbai-400 015 # Mob-97735 85815

circumstances of the case.

as this Hon'ble Court deems fit

consequential amendment to the

no 4(a) be added in the

terms of the schedule.

Execution application

heir of the proposed

१. प्रधानेश लॅक्समके कम्मान्टेमी २. विनव केल्कालान गरिका ३. मुख्य दक्तक मिदम, ४१ किन्य, भारीय रहत गर, नर्ज बाध सा

श्रीरिम रोशन वर्गर, परिवर्ण परिवम, दुंबई, महराष्ट्र ४०९२०३ लंगः आरहणतीष्ट्रणयीजाणजारुक्वरुक्वरुक्तः । इत्योग् तारीखः २१,४७,९०१९ मारणी सृष्येयं वारीखः ७,५९.२१

तराज जनेना विश्वक बना, प्रारम्भेन पूर्वीकाम सेटीया २०८ २०८ ६ ने ४, बोक्पवित सेव ५२५.७० ची.पीडर्स, वर्षों अ. ८०/१८पार अर्थि ८६/१०, राज बालाद अस, डॉर्सनाल बोड़ी रोडचे जंखन आणि हेयू बलानी रोड संदिवती परिचय, हुंबई ,महराहू में सर्व ने पार

Magne.	verle ar.	क्लंदचे क्षेत्र ची कृद मुसल	अनुका.	कसंद क्र.	क्लंटचे क्षेत्र ची.कृर नुसार		
- 8	1-1	10%	3.	568	X15;		
3	144	83%	10	Lot	99%		
	202	67.9	11	E02	195		
Y	348	375	58	- best	yw.		
76	701	¥45.	131	1969	1699		
4	707	945	88	78/00	195		
10	901	67.6	85	201	X53		
4	708	994	- 15	cor	494		

वरील सरह पोर्क्सिनीमान सरह सूचना इतिएदी नामहेबासून ६० विकास वर्तेल नवूड प्रकार विकास बुद्धैल व्याप आणि प्रयोज्य प्रका चुको कान्यालाठी कर्जाता, शहकर्जरार आहि/किया त्यांचे हारीता (प्रयोज्य तेथे) यांचा यात्री लुक्ता तेष्यात येत आहे, कस्तु केत्याल जिल्लुहिटाबहोदान औह रिक्रनटुबरन जीन प्रायनस्थित्रत असिटम् और दन्त्रोसंग्रेट और सिल्लुहिट्टी इंटीस्ट ऑब्ट २००२ व्या प्रतास (a) v) अर्थित त्या आंगनित प्रयोज्य नियमानुसार कर्जादार आणि गहणावटहारांच्या तारण मनिन्त कराजा प्रश्यासह तारण मनिन्य सार सुबनेच्य सारक्षेत्रासून ६० जिससंच्या समाजीनंतर पूर्वेल प्रवले उचलाचात पेतील.

कृपका रोत च्याची की, सरहरू अधिरियमाच्या कलक १३(१५) अन्ययं कोणीही कर्मता राज्य धनकोच्या पूर्व लेखी सहवनीतिकाय संदरह सुक्तेन नमूह केलेल्या कोजल्याही तराष्ट्र क्ला विकी, बाडेयहा किया अन्यवा सामाने हरलांतर कस

दिनांक : २१ फेलुवारी, २८२२ सही / - प्राधिकृत अधिकारी

विकास: मुंबई रिसायम होन प्रायकाना निविदेह

परिक्रिक्ट IV (नियन 8(1) पत्र) सबा सूचन (स्थावर मालनतेमाळी)

भ्या अर्थी,

निन्तस्यक्रीकर इंक्सिबुल्स इत्तरिन कायनान्य लिपिटेक्चे (CIN:L65622DL2005PLC136029) विकोरियक्ष्मेतन और फारनीरियत असेट्स और विकन्तदृक्तन. और स्वयनन्तियत असेट्स और एनपेरीन्ट और विक्वेरीटी इंटोस्ट कीट, 2002 अनवरे व्यक्तित अधिकारी आणि सार सूचन वाच हात्याच्या विशंकरासून शर्थ छ2 दिवसांच्या जात 15.09.2021 रोजी सूचनेत नमूद केलेली आणि अधिक (नक्न क. 25,60,030.31 (क्रयमें तेनीस लाख बात हुआर तीस आणि एकतीस पैसे फारत) वाडी कर्ज खाते हा.HLAPVSH06275479 या एकमेची पात फेट काल्याची विशंक 25.06.2021 पातृत से प्रत्यक्ष भरण करेपर्यंतनी गानगे, सूनन कर्कधर अंकुसर रामचंद्र मोरे, अंबुझर रामचंद्र मोरे ; ए आर ट्रान्सचेर्ट, सी के इमारत, 38, इसरा मजला, 178, संत तुकाराम मार्ग, प्लॉट क्र. 172/188, चतर मुज, दाना बंदर, विंच बंदर, टुंबई, बद्दाराष्ट्र - 400009, मनीमा अंकुश मोरे ; बी-24 0/1, तपसवा सीव्यवस्त, सेक्टर-10, हेरोली, उस्त्रे, महाराष्ट्र - 400708, मांग कराम 13(12) सह सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एम्पोर्सीन्ट) करण, 2002 व नियम 3 अन्यने प्राप्त झारोरूच अधिकारात जारी केसी.

स्टर् रक्तमेची परतपेत करणात कर्लदर अपवशी सरल्यमुखे चढ्दरे कर्लदर आणि सर्वसानाम तनतेला सूचन देम्बाट नेते की, सदर कानवाचे कलन 13 ची वर करान (4) सह सिक्वेरिटी इंटरेस्ट (दन्त्रोस्टीन्ट) सरफ, 2002 या नियम 8 अन्यने जान हातील्या अधिकारात्र स्त्राती वर्णन केंग्रेल्या मारामतेत्वा निन्न स्वाप्नरीकाराने

विशेषाः कर्नीयर आणि सर्वधानान्य जनतेता सद्धरे खबरदार करण्यत नेते वर्गे, य मातमतेचे व्यवहार कर न्येत आनि कोमानाडी जनवरावर इतियानुस्य हारसिन फायराना सिमिरेड में कर्न अकरानी क.23,60,030.31 (कवने नेबीस लाख चार हजार नीस शामि प्रकारित वैसे फला) पुरीत जाज 25.06.2021 पासून मायस भरणा करेंचवेत सामेत.

कर्जेदारांचे लक्ष्य करमा 13 ये उप-कलम (४) च्या पालमशा / पालम्लेला पुत्रन कराज्याताजी उपलब्ध वैजेकदे

स्थानर मालमनेचे नर्पन

बी-24 6/1, मेक्टर - 10, तपक्षमा मीव्यएम, ऐरोली, ठाणे, नहाराष्ट्र - 400708.

शारिक : 16,02,2022 स्तळ : खगे

इंडियाहुल्स हार्टासंग फायनान्स लिमिटेड

राष्ट्रीय कंपनी कियी न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपिठासमस कंपनी योजना याचिका २०२१ च्या छा. १६ जी संबंधित कंपनी योजना अर्ज २०२१ च्या क्र. २३७

क्यानी अधिनिकार, १०१३ (१८ तन १०१३) क्या कावलील;

बंधने अधिविक्त, २०१३ च्या काल २६० हे २१२ च्या झार व्यांच्य स्ट्राईट

च्या प्रकारित आणि विज्ञीतेची अवस्थायाच्यी अंतरीत केलेल्य विकासिक

पिशीलाईट आमेशियम् प्रामानेट लिपिटेट, लागांताक कंपणे तर विश्वीलाईट ईप्रसिद्ध तिरिटेड, इस्तंतरीती बंधमी अणि त्यांचे संबंधित संअस्तराज्य यांच्या एवटिकारा वीवनेत्रत बावरीतः

चित्रीलाहेर अवेतिकास प्राथकेर निमिरेड

कंपनी अधिरिक्ता, २४९३ अल्बने विधीलवृद्धि संपनी, विने जेल्लीकृत कार्यालय रिजेट चैकारे, ५ना मञ्चल,

व्यवस्थात क्यांव सर्वे, २०८, नामान परित, मार्च-१०० ०३१ विक्रोलाईट इंडम्प्ट्रिज् लिसिटेड

बंगती अधिनियम, १९५६ अंतरीत विधीतंत्रवारीत बंगती, विभे में स्टिप्स बापोलय

. वर्गायकार्था प्रवासी छ .

वाधिकेची सुवत

विरोधको: अधिमातम् प्रावर्धतः निर्वरितः, त्रमतंत्रामः संपत्ती आणि विरोधकोतः तेत्रस्तित्र निर्वरितः, त्रमतानीती बंजरी आणि त्यांचे संबंधित रोजर धारबांद्रते बंदले अधिविष्य, १०६३ च्या कतम १३० ते १३१ आतर्गत एव संयुक्त व्यक्तिया तरहर करण्यात आसी होती, जो २८ जर्मकारी, २०१४ गोबी सम्माननीय राष्ट्रीय कंपनी किया नार्वाचिकाल, मुख्ये बाहरीय द्वारे द्वारत कान पेटाले. जहां वर्ताका दिवाब ५ मार्थ, २०२२ गाँधे क्रमी प्रवास विष्याना सन्तरिक न्याविकल्पासन्ध मुक्तन्योक्तीक विधित करकात आहे आहे. कोर्याही व्यक्ती मञ्ज वानिकेच्या बाव्हे किया विरोधात बाधाल इच्छूच असन्याम खब्जिच्या मुरावरीकरेता विशिवर केरीनाव नार्वपूर्व विकास रोग रिक्स क्रांपेटर स्थानक क्रिया स्थानक विकास स्थानिक स्था क्रेस्ट्रेस स्थानक वेस्सी प्रकार utiverendne efectivit utefrit strave sei, ficherit strivet film envenit yn sin मुध्येमह पार्रापिने आवत्रपक आहे. वानिकेची वत कोमाही जातरिया आवत्रपक असल्पार त्यासची विहित वसर ven केन्स्रावर साविकाकरचीच्या चकित्राह्मो पुरविकास वितः.

राजेश शहा और में, क्लिना पाणिकाकार्यो करिता प्रकीत

... परिवयकार्थे संपन्ने क्र. १

तिरांच २१ केब्रुवारी, १०२२ रोजी

प्राचिकाकायां क्षतित प्रकील,

नारमा पाँदि, मुख्ये- ४०० ०२१

१६, ऑगरास्त विलियंत, २०, विभाग नाग्दर रोड, क्लांस फाउंटन, कोर्ट, सुंबई-४०४ ४०१,

SAMYAK INTERNATIONAL LTD.

CIN: L67120MH1994PLC225907

E-mail id :- sudhirsjain@yahoo.co.in Website :- www.samyakinternational.in

Unaudited Standalone and Consolidated Financial Result for the Nine Month Ended December 31,2021

(Rain Laca)

S. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED						
		Quarter ended		Nine Months Ended		Year ended	Quarter ended		Nine Month Ended		Year ended		
			30-09-2021		31-12-2021 (unaudited)		31-03-2021 (audited)				31-12-2021 (unaudited)	31-12-2020 (unaudited)	
389			(unaudited)										
1.	Total Income from Operations	42.58	121.44	180.81	194.77	302.21	1061.21	1088.05	639.77	841.91	2123.34	950.82	2800.61
2.	Net Profit for the perioditiefore Tax, Exceptional Notes)	0.72	2.54	134	5.09	2.64	16.92	134.33	31.16	(10.86)	155.47	12.06	(01.27)
8.	Not Profit for the period after tex (effector & Exceptional liens))	0.72	2.29	134	5.44	2.84	5.62	134.33	30.66	(11.30)	155.47	12.96	(78.79)
4	Total Comprohensive income for the period (Comprising Profit for the period (after too) and Other Comprehensive income (after too))	0.72	229	3.54	5.44	2.84	(248.88)	134,25	30.66	(11.20)	155.47	12.96	(334.51)
6.	Equity Share Capital	624,72	624.72	624.72	624.72	624.72	624.72	684.72	624,72	634,72	624.72	624.72	624.72
6.	Earnings Per Store (of Rs. 1/- each:						1	0		8 8		1	
	1. Besic.	0.01	0.04	0.02	0.09	0.06	(3.66)	2.16	0.49	(0.18)	2.49	0.21	(5.36)
	2. Disabilit	0.01	0.04	0.02	0,09	0.05	(3.98)	2,15	0.49	(0.18	2.49	0.21	(5.36)

Note: 1. The above Result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting hold on: 14 February, 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Pinancial Results for Quarter/fulf Year ended 31th December 2021 filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) regulation 2015 the full formet of the Standarone and Cossolidated financial results are available on the websites of the BSE (Bombay Stock Exchange) Website- www.beseindia.com

The company has subpted inclian accounting standards (ind AS) notified by the ministry of corporate affairs from 1st april 2017 with a transition date of 1st april 2018 and accordingly these financial results have been empared in accordingly and accordingly these financial results have been empared in accordingly and the companies (indian accounting standards) substitutes as action 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 of the companies act, 2015 prescribed under section 155 prescribed under secti

means of a factnote.

5. exceptional and forestreadinary terms adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS Rules, AS Rules, whichever is applicable. Place: Indore

By Ordr Of The Board For :- SAMYAK INTERNATIONAL LIMITED SUNITJAIN

Chairman & Managing Director (DIN: 05924372)

wizard

Date: 14/02/2022

कल्याण डोंबिवली

महानगरपालिका, कल्याण

वांधकाम विभाग

निकिदा सूचना क्र. ९७/२०२१-२२

सोबतच्या १ कामांसाठी योग्य त्या वर्गामध्ये नोंदगीकत वेकेदारांकडन बी-१

नमुन्यात शासन निर्शय शुध्दीपत्रक मोहोरबंद शिकरका मध्ये बाहीर निविदा

मागविष्यात येत आहे. सदर कामाचे कोरे निविदा फॉर्म, दिनांक

२१/७२/२०२२ ते ७/०३/२०२२ रोजी द्यारी ३,०० वाजेपर्यंत कार्यालयीन

वेळेत रोखीने विकत मिळतील सदर कामाची बयाणा स्वकम "आयवत,

कल्याण, डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण" या नावाने रोख/डिमांड

डाफटारे भरावधाचे आहे. परिपूर्ण भरलेल्या निविदा, कार्यकररी अभियंता,

बांचकाम कल्याण विभाग कार्यालपातील सीलबंद केलेल्या पेटीमध्ये दिनांक

८/०३/२०२२ रोजी द्वारी ३.०० वाजेपर्यंत टाकण्यात बाव्यात. मृदतीत प्राप्त

झालेल्या निविदा शक्य झाल्यास त्याच दिवशी साथं, ५,०० वाजता उधहण्यात

कोगतेशी कारण न देता सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार आयुक्त,

कल्याण, डोबियली महानगरपालिका यानी राखन ठेवला आहे. तसेच

निविदेशासत्तवी अधिक माहिती लेखा अभियांत्रिकी विभाग गांचेकडे उपलब्ध

३) अनुभवाचा दाखला सत्पप्रत, ४) जीएसटी क्रमांक, ५) बिंड कॅपॉसिटी

विविदेसीवत जोडलेली सर्व कागदण्डे खरी असल्याबाबतचे प्रतिज्ञाण्ड

(परिशिष्ट-१) ५००/- रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर सादर करणे बंधनकारक

६) इपीएर क्रमांक, ७) पॅनकाई सत्यप्रत असणे आवश्यक आहे. तसेच

व) लिकाफा क्र. ०२ मध्ये देकार दिलेले निविदापत्र असणे आवश्यक आहे.

यते समाधानकारक असल्यासच लिफाका क्र. ०२ उधडण्यात बेईल.

३.००% सुरक्षा अनामत बिलातुन कपात करण्यात पेईल.

I am the future of India, I am a Voter Now

वाक्र, कडोंमपा/वसंवि/मुका/१००६

R. 84/07/7077

क) काननी अंती लिफाफा क्र. ०१ मधील सर्व कागदपत्रे, निविद्य समिली बांच्या

इ) न्युनतम निथिदाधासकाने मंजूर रक्कमेश्या १.००% सुरक्षा अनामत

टिप:- मास्क वापरा, सामाजिक अंतर ठेवा, हात पुवा ! त्री-सुत्रीचे पालन

करारनामा करने. पूर्वी रोख/डिमांड डाफ्ट स्वरूपात भरणे आवश्यक आहे व

सही/-

(सपना कोळी-देवनपल्ली)

कल्याण डॉबियली महानगरपालिका,

शहर अभिवंता,

१) क्याणा डिमांड द्वापट, २) नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत,

अ) लिफाफा क्र. ०१ मध्ये

आहे.

आयुक्त, कल्याण डोबिवली महानगरपालिका हे महापालिका क्षेत्रातील

ward WARDWIZARD INNOVATIONS AND MOBILITY LIMITED

(Formerly known as Manvijay Development Company Limited) Corporate Identification Number: L35100MH1982PLC264042 Our Company was originally incorporated as "Manylay Development Company Limited in the State of West Bengal as a public limited company, under the Companies Act,

1956 and a Certificate of Incorporation dated October 20, 1982, was issued by the Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta. Thereafter our Company obtained a Certificate of Commencement of Business on November 23, 1982. The Registered office of our Company was shifted from State of West Bengal to the State of Maharashtra pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 on May 19, 2015 Subsequently, the name of our Company was changed to its present name on February 05, 2020, and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbei. Registered Office: No. 401, Floor-4, 23/25, Drun Building J

Mumbai - 400001, Maharashtra Tel: +91 022 -22024366; Fax: N.A.

Corporate Office Address: Survey 25/2, Opposite Pooja Farm, Sayajipura, Ajwa Road, Vadodara, Gujarat - 390019; Tel No: + 91 9727755683. E-mail: compliance@wardwisert.in; Website: www.wardwisert.in. Contact Person: Ms. Jaya Ashok Bhardwsj, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MR YATIN GUPTE, WARDWIZARD SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED, AEVAS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED AND GARUDA MART INDIA PRIVATE LIMITED ISSUE OF UPTO 50.62.373 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 7.1 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF

₹ 82 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 81 PER RIGHTS BOUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS.4889.15* LACS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE(1) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY FORTY THREE (43) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JANUARY 22, 2022 (THE "ISSUE"), THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 7 62 WHICH IS 62 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 196 OF THE LETTER OF OFFER Assuming full subscription

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY RIGHTS ISSUE OPEN

Last date for receipt of Rights Issue Application forms is extended upto Monday, February 28, 2022

Simple Safe Smart way of

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking Application - Make use of it!! I the fund in the bank account, For details, check section on ASSA below

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASSA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatority required to use the ASBA process or the optional mechanism instituted only for Resident individual investors in this issue, Le. R-WAR

Kindly note that Non-Resident Investors cannot apply in this Issue using the R-WAP facility, and therefore will have to apply through ASBA mode.

Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA or the optional mechanism. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 218 of the Letter of Offer. PLEASE NOTE THAT ONLY RESIDENT INVESTORS CAN SUBNIT THEIR APPLICATION USING THE R-WAP R-WAP FACILITY IS OPERATIONAL FROM THE ISSUE

LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform the Eligible shareholders of the Company that the date of Closure of the Flights issue which opened on Monday, February 07, 2022 and scheduled to close on Monday, February 21, 2022 has now extended by the Company from Monday, February 21, 2022 to Monday, February 28, 2022 vide board meeting dated February 19, 2022, in order to provide apportunity to shareholders to exercise the rights in the Rights issue.

Accordingly, Last date of submission of the duly filled Rights Issue Application forms is extended upto Monday, February 28, 2022 (i.e. Issue Closing Date) PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY ATLEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE I.E. FEBRUARY 24, 2022, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS

WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM. All otment of rights equity shares in demaiorialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be all otted only in demaiorialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

If the Application Form is not submitted with a SCSB nor uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB or if the Application Form is not accepted at the R-WAP, on or before the Issue Closing Date i.e. February 28, 2022 or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be dearned to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, Basis of Allotment" on page 229 of the Latter Of Offer.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE. CLOSURE DATE AS MONDAY, FEBRUARY 28, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM EXCEPT OF MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE; RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE

LEAD MANAGER TO THE ISSUE **FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED**



(Formerly known as Fedex Securities Limited) CIN: U67120MH1996PTC102140 B7, Jay Chambers, Dayaidas Road, Vile Parle East, Mumbai - 400057 Tel. No.: +91 22 26188966;

E-Mail: mb@fedsec.in Contact Person: Yash Kadakia Wabsite: www.fedsec.in SERI Reg. No.: INM000010163



PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PVT. LTD. Unit No. 9, Ground Roor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, Contact Details: +91-22-2301 6761/8261 Email Address: support@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deecal Dhurt: SEBI Registration Number: INRC00001112

REGISTRAR TO THE ISSUE

For Wardwizard Innovations and Mobility Limited On behalf of Board of Directors

Jaya Sharadwai Company Secretary and Compliance Officer

Place: Vadodara

Date: February 19, 2022